



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र 1940 (श10)

(सं० पटना 852) पटना, सोमवार, 17 सितम्बर 2018

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

12 सितम्बर 2018

सं० 5 नि०गो०वि० (1) 08/2018-235/नि०गो०—डॉ० सुधीर कुमार, प्रतिनियुक्त पशु चिकित्सक 24x7 राजकीय पशु चिकित्सालय बिहार शरीफ, नालंदा के विरुद्ध जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालंदा द्वारा मुख्य रूप से निम्न आरोप लाया गया:—

- (i) कार्यालय आदेश 472 दिनांक 02.04.2018 द्वारा डॉ० कुमार को पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवारा के दौरान एफ०एम०डी० टीकाकरण हेतु नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया जिसे डॉ० कुमार द्वारा लेने से इंकार कर दिया गया।
- (ii) साथ ही डॉ० कुमार द्वारा उनके साथ कार्यालय कक्ष में आकर गाली गलौज एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गयी है।

उक्त आरोप के लिए डॉ० कुमार से स्पष्टीकरण की गयी तथा निदेशक पशुपालन द्वारा भी उक्त आरोपों का जाँच करवाया गया। डॉ० कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में खुद ही स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा कार्यालय आदेश 472 दिनांक 02.04.2018 को नहीं लिया गया तथा निदेशक, पशुपालन द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में यह तथ्य अंकित है कि जिला पशुपालन

कार्यालय, नालंदा के कर्मचारियों के लिखित बयान प्रमाणित करता है कि डॉ० कुमार द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालंदा के साथ गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गयी।

स्पष्ट है कि डॉ० कुमार द्वारा कार्यालय आदेश को लेने से इंकार करना तथा वरीय पदाधिकारी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना एक सरकारी सेवक के लिए निर्धारित आचरण के विरुद्ध कृत्य है।

अतः उक्त कृत्य के लिए सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में डॉ० सुधीर कुमार, प्रतिनियुक्त पशु चिकित्सक 24x7 राजकीय पशु चिकित्सालय बिहार शरीफ, नालंदा को लिखित चेतावनी दी जाती है कि इस तरह के कृत्य की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जाय और इसकी प्रविष्टि डॉ० कुमार के चरित्र पुस्तिका में की जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

वीरेन्द्र कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 852-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>